



प्रीस्कूल के नामांकन की कार्यविधियाँ

आवेदन कैसे करें और आगे क्या होगा

आवेदन

- माता-पिता/अभिभावक केवल एक प्रीस्कूल सेंटर के लिए WPSA स्टैन्डर्ड आवेदन फॉर्म पूरा करते हैं और वे अधिकतम दो विकल्प शामिल कर सकते हैं।
- आवेदन के साथ आवासीय पते का प्रमाण अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए। केवल किसी उपयोगिता कम्पनी के हाल ही के बिल की प्रति स्वीकार की जाएगी। रेड्स नोटिस स्वीकार्य नहीं है।
- आवेदन के साथ बच्चे/बच्ची के जन्म का प्रमाण प्रदान किया जाना चाहिए।
- आवेदन के साथ अप-टू-डेट आवेदन का प्रमाण प्रदान किया जाना चाहिए। AIR हिस्ट्री स्टेटमेंट (ऑस्ट्रेलियन इम्युनाइजेशन रिकॉर्ड) Medicare ऑनलाइन से डाउनलोड किया जा सकता है।
<http://www.health.vic.gov.au/immunisation/factsheets/no-jab-no-play.htm>
- यदि आपके या आपकी संतान के पास हेल्थ केयर कार्ड, पेन्शन कार्ड या इसके समान कोई कार्ड है तो आवेदन के साथ इसकी एक प्रति अवश्य दी जानी चाहिए।
- उन बच्चों के आवेदन स्वीकार किए जाते हैं जिनकी आयु कम से कम दो साल हो।
- बच्चों को 4 साल के प्रीस्कूल से पहले 3 साल के प्रीस्कूल के लिए केवल एक साल के लिए ही सुविधा प्राप्त होगी।
- कृपया सुनिश्चित करें कि जिस सेंटर के लिए आप आवेदन कर रहे/रही हैं, आपको उनकी नामांकन नीति मिलती है ताकि आपको उनके चयन मानदण्ड की समझ रहे।
- आवेदन WPSA Applications Office को प्रवेश से पहले के वर्ष की 30 जून तक मिल जाने चाहिए। इस तिथि के बाद मिलने वाले आवेदनों को प्रतीक्षा-सूची में रखा जाएगा।
- WPSA Applications Office को आवेदनों में किए जाने परिवर्तनों या इन्हें रद्द करने की सूचना प्रवेश से पहले के वर्ष की 30 जून तक मिल जाने चाहिए।
- WPSA निवेदन किए गए प्राथमिकता आवेदनों की सूची प्रीस्कूलों को भेजता है ताकि स्थान निर्धारित किए जा सकें।
- मूल आवेदन में कोई संशोधन लिखित रूप में किया जाना चाहिए। विवरण या प्राथमिकताएँ बदलने के लिए नया आवेदन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है।
- विकल्पों के लिए आवेदनों पर केवल उसी परिस्थिति में गौर किया जाएगा जब उस प्रीस्कूल पर प्राथमिक प्रस्तुतियों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद खाली स्थान शेष हों। विकल्पों पर समान रूप से गौर किया जाता है, न कि दूसरे तथा तीसरे विकल्प पर।
- यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे पास आपके अप-टू-डेट (नवीन) संपर्क विवरण हैं। यदि आपके संपर्क करने का कोई प्रयास विफल रहता है तो विकल्पिक तरीके का प्रयोग करके केवल एक बार और प्रयास किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया

- प्रत्येक प्रीस्कूल अपने चयन मानदण्ड के अनुसार प्लेसमेंट्स का निर्धारण करता है।
- प्रीस्कूल पहले दौर की पेशकश को उस पेशकश वर्ष के पिछले साल की जुलाई और अगस्त में लिखित रूप से भेजते हैं।
- सफल आवेदकों को प्रीस्कूल को देय डिपॉजिट देकर पेशकश की पुष्टि करनी चाहिए।
- यदि किसी कारणवश आपसे जुलाई से सितम्बर तक के महीनों में संपर्क नहीं किया जा सकता है तो Applications Office को सूचित करना आपकी जिम्मेदारी है अन्यथा हो सकता है कि आपकी संतान आवश्यक तिथि तक पेशकश को स्वीकार करने में असक्षम हो।
- प्लेसमेंट्स का निर्धारण करने की जिम्मेदारी प्रीस्कूलों की होती है; प्रत्येक सेंटर की नामांकन नीतियाँ अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि आप उस सेंटर के चयन मानदण्ड से परिचित रहें जहाँ आपने आवेदन किया है।

असफल आवेदक

- प्रीस्कूल अनिवार्य नहीं है और इसमें आवेदन करने वाले सभी बच्चे प्लेसमेंट प्राप्त करने में सफल नहीं होंगे।
- प्रीस्कूल 4 वर्ष के बच्चों के लिए अधिक स्थान प्रदान करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जितने संभव हो सके, उतने बच्चे अपनी स्कूली शिक्षा शुरू करने से पिछले साल एक साल हे लिए वित्त-पोषित प्रीस्कूल में भाग ले सकें।
- यदि आप स्थान प्राप्त करने में असफल रहते/रहती हैं, तो प्रीस्कूल अपनी प्रतीक्षा सूची का विवरण आपको लिखित रूप में देगा।
- यदि आप अन्य विकल्पों पर गौर करना चाहते/चाहती हैं, तो अन्य प्रीस्कूलों में किसी खाली स्थानों के विवरण के लिए WPSA Applications Office से संपर्क करें।
- यदि वैकल्पिक आवेदन प्रीस्कूल पर उपलब्ध स्थानों से अधिक हैं तो प्रीस्कूल अपने चयन मानदण्ड के अनुसार स्थानों की पेशकश करेगा। विकल्पों पर समान रूप से गौर किया जाता है, न कि दूसरे तथा तीसरे विकल्प पर।